



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 125]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1982/चैत्र 10, 1904

No. 125] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1982/CHAITRA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1982

(बैंकिंग प्रभाग)

का. आ. 211(अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के अनुरोध पर 31 मार्च, 1982 से आंध्र प्रदेश राज्य में संगमेश्वर ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के महबूब नगर जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ. 1-6/82-आर. आर. बी. (1)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th March, 1982

(Banking Division)

S.O. 211(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by State Bank of India, establishes, with effect from 1520 GI/81

the 31st March, 1982 a Regional Rural Bank in the State of Andhra Pradesh under the name of Sangameshwara Grammeena Bank which shall operate within the local limits of the district of Mahboobnagar in the State of Andhra Pradesh.

[No. F. 1-6/82-RRB (I)]

का. आ. 212(अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा संगमेश्वर ग्रामीण बैंक के प्रायोजक भारतीय स्टेट बैंक से परामर्श करके, महबूब नगर को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर संगमेश्वर ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ. 1-6/82-आर. आर. बी. (2)]

S.O. 212(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and State Bank of India, by which Sangameshwara Grammeena Bank has been sponsored, specifies Mahboobnagar as the place where Sangameshwara Grammeena Bank shall have its head office.

[No. F. 1-6/82-RRB (II)]

का. आ. 213(अ) :—भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा उक्त उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए, संगमेश्वर ग्रामीण बैंक, महबूब नगर को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, (353)

1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एफ. 1-6/82-आर. आर. बी. (3)]

S.O. 213(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Sangameshwara Grameena Bank, Mahboobnagar being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-6/82-RRB (III)]

का. आ. 214(अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री टी. नरसिंह मूर्ति को संगमेश्वर ग्रामीण बैंक, महबूब नगर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 31-3-1982 से प्रारम्भ होकर 31-3-1985 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री टी. नरसिंह मूर्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 1-6/82-आर. आर. बी. (4)]

राम बेहरा, अवर सचिव

S.O. 214(E).—In exercise of the powers conferred by section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri T. Narsimha Murthi as the Chairman of the Sangameshwara Grameena Bank, Mahboobnagar and specifies the period commencing on the 31-3-1982 and ending with the 31-3-1985 as the period for which the said Shri T. Narsimha Murthi shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-6/82-RRB (IV)]

भारतीय रिजर्व बैंक

(ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष)

बम्बई

अधिसूचना

बम्बई, 31 मार्च, 1982

का. आ. 215(अ) :—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात् :—

“संगमेश्वर ग्रामीण बैंक, महबूब नगर (आंध्र प्रदेश)”

[आर. पी. सी. सी. संख्या आर. आर.

बी. 229/आई. एन. सी. एल./311-82]

एच. बी. शिवामगी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Rural Planning and Credit Cell)

Bombay, the 31st March, 1982

S.O. 215(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Sangameshwara Grameena Bank, Mahboobnagar, Andhra Pradesh”.

[RPCC. No. RRB-229/INCL/311-82]

H. B. SHIVAMAGGI, Executive Director